

November 09, 2023

Scrip Code: 543272	Symbol: EASEMYTRIP
FortMumbai – 400001	East, Mumbai – 400051
P J Towers, Dalal Street,	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra
BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Limited (NSE).

# Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 47 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding publication of the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023, published in Financial Express (English) and Jan Satta (Hindi) on November 09, 2023 are enclosed.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

For Easy Trip Planners Limited

PRIYANKA TIWARI Digitally signed by PRIYANKA TIWARI Date: 2023.11.09 17:12:39 +05'30'

Privanka Tiwari

**Group Company Secretary and Chief Compliance Officer** 

Membership No.: A50412

**Easy Trip Planners Ltd.** 

Registered office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India)

























TOWARDS MORE TRANSPARENCY

MARKETS, P6

Amfi directive of giving 10-year rolling returns will curb mis-selling



INTERNATIONAL, P7

TWO-DAY MEET ENDS

G7 calls for pause in Gaza war, seeks release of hostages



NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023

FOLLOW US ON TWITTER & FACEBOOK. APP AVAILABLE ON APP STORE & PLAYSTORE WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

# FINANCIAL EXPRESS

SENSEX: 64975.61 ▲ 33.21 NIFTY: 19,443.50 ▲ 36.80 NIKKEI 225: 32,166.48 ▼ 105.34 HANG SENG: 17,568.46 ▼ 101.70 ₹/\$: 83.28 ▼ 0.01 ₹/€: 88.82 ▲ 0.14 BRENT: \$80.87 ▼ \$0.74 GOLD: ₹60,201 ▼ ₹171

### **ADANI'S COLOMBO PORTTERMINAL GETS US AGENCY LOAN**

**US INTERNATIONAL DEVELOPMENT** Finance Corporation will provide financing support of \$553 million to Colombo West International Terminal, a JV in which India's Adani Group is a partner, reports Rajesh Kurup.

### **GOVT SANCTIONS ₹1.1-TRN CAPEX LOANS TO STATES**


THE CENTRE HAS sanctioned ₹1.1 trillion so far in the current financial year, as interest-free 50-year capex loans to states and disbursed as much as ₹60,000 crore, reports Prasanta Sahu.

## **OCT CPI INFLATION SEEN AT 5-MONTH LOW OF 4.8%**

THE CPI-BASED

INFLATION likely fell to a five-month low of 4.8% in October, primarily due to the statistical effect of a high base, according to an FE poll, reports **Priyansh Verma**. ■ PAGE 2

### **MORE PRODUCTS ON OFFER SOON** WITH FASAL BIMA



from the highly subsidised PMFBY, reports Sandip Das. PAGE 2



Bletchley Declaration: Baby steps towards 'safe AI'

The declaration on assesing and curbing AI risks was signed by 28 countries

**EXPLAINER, P9** 

**VIVEAT SUSAN PINTO &** 

WHENTHE WORLD'S most

valuable brand - Apple -

decided to open its first

retail store in India, it chose

Mumbai's Bandra-Kurla

Complex (BKC) as its go-to

destination. The store has

been beating expectations in

terms of revenue and footfalls,

ings call, putting the spotlight

on the area which the world's

best brand calls home in the

financial capital of the

financialem.er

country.

CEO Tim Cook said in a recent earn-

**BINDU D MENON** 

November 8

Mumbai/New Delhi.

# 11 firms ride the market wave to join ₹1-trn m-cap club **Adani Energy and Vedanta exit brings**

**SWASTIKA MUKHOPADHYAY & KISHOR KADAM** 

Mumbai, November 8

number down to 57

**AS INDIAN MARKETS** scaled new highs this financial year, the market capitalisation (m-cap) of 11 companies crossed the ₹1 trillionmark over the past seven months, joining the club with 46 others. This is a rise of 19% over FY23.

These 11 firms include Adani Power, DLF, Hindustan Aeronautics, Jio Financial Services, Varun Beverages, IndusInd Bank, Hin-

MARKET CAP (₹ trillion)

Consumer Products, Bharat Electronics and Cipla. Out of these, five companies –

\*rejoined; \*\*got listed on 21 August 2023

Adani Power, DLF, Hindalco

dalco Industries, Zomato, Godrej Industries, Zomato and Godrej Consumer Products – have number to 57. rejoined the group.

Adani Energy Solutions – exited 10% and 12%, respectively in

this club, bringing down the final

During the same period, the Two companies – Vedanta and Sensex and Nifty 50 returned

FY24 while the BSE MidCap and BSE SmallCap returned 35% and 42%, respectively.

Adani Power, the power subsidiary of Adani Group, saw its mcap decline to ₹74,000 crore by March 31 after US short seller Hindenburg Research accused the group of fraud and stock manipulation in a report in January. However, it recovered and jumped 105.3% to ₹1.52 trillion. Its mcap was the highest among the entrants followed by DLF at ₹1.47 trillion and Hindustan Aeronautics at ₹1.37 trillion.

Jio Financial Services, which listed on the Indian markets on August 21, hit the ₹1 trillionmark on the very same day. Today

its m-cap stands at ₹1.36 trillion. Typically, firms with m-cap of

more than ₹1 trillion are consid ered large-cap stocks.

"In case of large-cap companies, the risk-reward equation is quite attractive and if one has to play the investment story from a long-term perspective, large-caps are better options. This is why, we see a lot more companies joining this club and will continue to do so going ahead," said Pankaj Pandey, head, research at ICICI

As of March 31 2023, 48 companies had m-cap of ₹1 trillion and above. With the the addition of 11 new members, the total number has risen to to 59. However, with the exit of two firms, the final list stands at 57.

Continued on Page 12

Investment trends

# **GOVTTARGETS TRADE DEAL BY YEAR-END**

# EV import duty cut in the works

# on cars priced above \$80,000 proposed

SHRUTI SRIVASTAVA November 8

THE CENTRAL GOVERNMENT is proposing reducing import taxes on some electric vehicles from the UK in an effort to clinch a free-trade deal between the two nations by the end of the year, according to two people familiar with the discussions.

New Delhi is considering a concessional tariff of 30% on 2,500 electric vehicles imported annually from the UK priced above \$80,000, the people said, asking not to be identified as the talks are private. India currently levies taxes between 70-100% on cars imported as completely built units, depending on their value. The UK's demand for import

concessions on electric vehicles is one of the few outstanding issues in the free trade talks. Prime Minister Rishi Sunak and his Indian counterpart Narendra Modi had hoped to finalise the agreement by the end of last month, but it's unlikely a deal will now be announced until December, Bloomberg News previously reported.

The trade ministry didn't immediately respond to a request for information. A spokesperson for the UK trade department declined to comment as the talks are still ongoing. India is the world's most populous country, with demand for electric vehicles rising among middle-class and wealthy

Destination BKC for top global brands

That's a pretty long distance BKC has

Bandra and Kurla was an empty

marshland along the Mithi

river. Today, it's among Mum-

bai's prime commercial dis-

tricts, spread over 370

hectares and has evolved

into something far more

than a place full of swanky

office towers and buildings.

It is now a thriving food, bev-

erage, and entertainment des-

tination with malls, restaurants,

projects, a convention and cul-

tural centre as well as hospi-

tals, schools and five-star

multiplexes, high-end residential

hotels.

covered. Just 30 years ago, the area between

COMPLEX NOW ALSO A THRIVING FOOD & SHOPPING HUB

### **WORK-IN-PROGRESS**

purchased from overseas 70-100% unassembled, the tax ranges from **15-35%** 

> for import concessions on electric vehicles is one of the few outstanding issues in the free trade talks

■The two countries expect the free trade deal would double bilateral trade by 2030 through lower tariffs and increased market access

buyers. The adoption of EVs in the country has been held back by the high cost of the cars, a dearth of options and lack of charging stations. Opening up the EV segment of the market could also speed up cleaner transport in a nation with the world's most

49,800 last year, making up just 1.3% of the 3.8 million passenger vehicles sold, according to BloombergNEF.

### Concessional rate of 30% ■India currently ■ For vehicles levies taxes

between

on cars imported as completely built units, depending on their value

■The UK's demand

Electric vehicle sales in India stood at

Consider this: There are over 70-75

restaurants and bars within BKC, according

to retail and real estate industry executives,

with the potential to cross over 100 estab-

lishments in the next few years, as a steady

office-going and leisure crowd ensures

promoter of Mumbai-based Beyond

Squarefeet, a mall management advisory

firm, says that BKC has become an island

unto itself, a township, since it was first

identified as a business hub by the Mum-

bai Metropolitan Region Development

Authority (MMRDA) to relieve traffic con-

gestion in South Mumbai in the late

Susil Dungarwal, a retail expert and

consistent footfalls into these outlets.

**Continued on Page 12** 

### Year of a lone unicorn Total funding Number of (\$ billion) total rounds After two exciting years, in which 67 unicorns were born in India, 2023 has seen just one so far – 2,085 Zepto. While the funding slowdown was not unexpected, a reality check has seen investors scrutinise deals a lot more closely: very few are taking new bets as reflected in the funding winter. 2,350 3,220 2,708 Number of unicorns created

# EaseMyTrip

## **Easy Trip Planners Limited**

Registered Office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India) Email us: Care@easemytrip.com Call us: 011 - 43131313, 43030303



₹646.50 Million

₹471.78 Million

**Profit After Tax** 

₹0.27

33.25%

**Total Income** 

**Profit Before Tax** 84.29%

81.29% 👚

Earnings Per Share 80% 1

% increase are shown on quarter to quarter basis (INR In Millions)

Six Months Six Months Year Ended Quarter Ended Quarter Ended Quarter Ended **Period Ended** Period Ended 30.09.2022 31.03.2023 30.09.2023 30.06.2023 **Particulars** 30.09.2023 30.09.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) 1,445.68 4,641.98 1,266,45 2.035.32 Total income 1,120.72 2,712.13 832.36 Net Profit / (Loss) for the period before tax 646.50 350.82 388.06 997.32 1,849.38 613.51 Net Profit / (Loss) for the period after tax 469.55 1,341.03 259.05 282.17 728.60 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period 1,340.30 473.99 624.45 253.12 286.83 727.11 (after tax) and Other Comprehensive Net Profit for the Periods/Years attributable 471.78 253.12 286.83 727.11 613.51 1,341.98 to Equity holders Paid up Equity Share Capital (Face Value 1,772.04\* 1,738.32 434.58 1,772.04 434.58 1,738.32 of Rs.1/- each) Earnings per equity share (face value Rs.1/per equity share) (not annualised for quarters) 0.27 0.15 0.16 0.42 0.35 0.76 Basic & Diluted

\*Preferential Allotment of 33.72 million equity shares were made on September 27, 2023

Note: The above is an extract of the detailed format of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website www.easemytrip.com

Date: November 08, 2023

Place: Delhi

By Order of the Board For Easy Trip Planners Limited

Name: Priyanka Tiwari Designation: Group Company Secretary and Chief Compliance Officer

**Over 13 Million Happy Customers** 

\*T&C Apply





1970s.

Continued on Page 12

New Delhi









Membership No.: A50412



jansatta.com epaper.jansatta.com

महिला साक्षरता और परिवार नियोजन पर बोलने में फिसल गई जुबान

# विवादित बयान पर हंगामे के बाद नीतीश ने मांगी माफी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, ८ नवंबर।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले जनसंख्या को नियंत्रित करने में महिला शिक्षा के महत्त्व से जुड़ी अपनी टिप्पणी के लिए बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ इसके बाहर भी माफी मांगी। विधानसभा परिसर में नीतीश के पहुंचने पर भाजपा विधायक ने हाथों में तख्तियां लेकर उनके बयानों की निंदा की और उनके इस्तीफे की भी

मांग की। पटना में नीतीश ने कहा, 'मुझे आज पता चला है कि मैंने कल जो कुछ कहा था वह कई लोगों को पसंद नहीं आया। मेरा इरादा महिला बाकी पेज 8 पर सशक्तीकरण पर



कोई अपराध करना नहीं था, लेकिन मैं खुद अपनी निंदा

करता हूं ... आपने (विपक्षी सदस्यों) कहा कि मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं ना सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। मैं महिलाओं का

पक्षधर रहा हूं। -नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा में शर्म भी नहीं आती, चुप क्यों हैं गठबंधन के सहयोगी: मोदी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 नवंबर।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की और कहा कि महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए वह जो भी कर सकेंगे, करेंगे।

-पूरी खबर पेज 🗞



# आचार समिति की मसविदा रपट में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, ८ नवंबर।

घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तुणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। सुत्रों के मृताबिक, मामले की जांच के बाद लोकसभा की आचार समिति की रपट में महआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की

सिफारिश की गई है। इस बीच महुआ पर लगे आरोपों की रपट पर विचार करने के लिए गुरुवार को समिति की बैठक होगी।

वहीं, मसविदा रपट में लोकसभा की प्रक्रिया और कामकाज के

संचालन के नियमों के नियम 275 का उल्लंघन करने के लिए बसपा सांसद दानिश अली को भी चेतावनी दी गई है, जो संसदीय समितियों की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित है।

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की आचार समिति ने अपनी सिफारिश में प्रमुख आधार राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाया है। अपनी सिफारिश में कमेटी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने अपनी संसदीय अकाउंट की जानकारी अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ शेयर की हैं, जिसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है।

-संबंधित खबर पेज 8



'मेरे तीसरे कार्यकाल में शीर्ष तीन

अर्थव्यवस्थाओं में होगा देश'


# गुरुग्राम: चलती बस में आग लगने से दो की मौत,12 झुलसे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 नवंबर।

दिल्ली-जयपुर मार्ग पर गुरुग्राम में बुधवार देर रात एक चलती स्लीपर बस में आग लगने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बस जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

हादसे में बस में सवार पुलिस के अनुसार घायलों में से पांच को मेदांता अस्पताल और सात को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में तीन लोगों को सफदरगंज अस्पताल भेजा गया है। दमकल विभाग के उप निदेशक गुलशन कालरा ने बताया कि घटना दिल्ली से जयपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर झाड़सा फ्लाइओवर के पास देर रात की है। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली कि एक स्लीपर बस में आग लगी है। इसके बाद तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दो यात्रियों की जलने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य यात्री झुलस गए। सिविल अस्पताल के चिकित्सक डा मानव ने पृष्टि की कि अस्पताल में सात घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी घायल 30 से 50 फीसद तक झुलस गए हैं लेकिन उनकी हालत स्थिर है। पुलिस के अनुसार, रात आठ बजे गुरुग्राम के सेक्टर-12 से श्रमिकों से भरी अरुणाचल प्रदेश के नंबर की बस उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जा रही थी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर गूगल कार्यालय के सामने बस में



गुरुग्राम के झाडसा में जलती बस ।

आग लग गई। सूचना के अनुसार इसमें कुछ गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इससे ही आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने कहा कि फिलहाल दो लोगों के मौत हुई है। कुछ लोगों को सफदरगंज भेजा गया है। अन्य लोगों का सिविल अस्पताल और मेदांता में इलाज चल रहा है। आग लगने के कारणों की तलाश की जा रही है। चालक फरार बताया जा रहा है।

आग लगने की घटना से दिल्ली जयपुर हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस जगह-जगह हाईवे पर तैनात रही और यातायात को सुचारु करने में कड़ी मशक्कत की। खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था।

# संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे हफ्ते से

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 नवंबर।

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आरंभ हो सकता है और क्रिसमस से समापन की इसके संभावना है।

सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीन दिसंबर को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना के कुछ दिनों बाद यह सत्र शुरू हो पर जोर नहीं दिया। सरकार इस सकता है। प्रमुख आपराधिक कानुनों के स्थान पर लाए गए तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है।

शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और क्रिसमस (25 दिसंबर) से पहले समाप्त हो जाता है।

संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। मानसून सत्र में पेश किए गए इस विधेयक को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है।

# विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट

# चिंताजनक दुनिया में बढ़ रही है तपेदिक की बीमारी

दमोह की जनसभा में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी।

मुख्यमंत्री सट्टेबाजी और काला धन

पैदा करने में शामिल पाए गए। मोदी

ने कहा कि 2014 के बाद देश की

अर्थव्यवस्था बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 नवंबर।

जनसत्ता ब्यूरो

जारी रखेंगे।

नई दिल्ली, 8 नवंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार

को कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में

अपने तीसरे कार्यकाल में वह देश

को दुनिया की शीर्ष तीन

अर्थव्यवस्थाओं में ले जाएंगे। 17

नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव

से पहले मध्य प्रदेश के दमोह शहर

में एक जनसभा को संबोधित करते

हुए, मोदी ने यह भी कहा कि वह

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना

छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस

को सत्ता सौंपी, लेकिन उनके

उन्होंने कहा कि लोगों ने

वर्ष 2022 में दुनिया में कुल 75 लाख लोगों में तपेदिक (टीबी) होने का पता चला। यह 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लएचओ) द्वारा वैश्विक टीबी निगरानी शुरू किए जाने के बाद यह सर्वाधिक है। यह जानकारी 192 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों वाली एक रपट में दी गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 वैश्विक टीबी रपट से यह भी पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर, 2022 में अनुमानित एक करोड़ छह लाख लोग टीबी से बीमार पड़े, जो 2021 के आंकडे एक करोड तीन लाख से अधिक है।



सर्वाधिक ७५ लाख लोगों में टीबी। वर्ष २०२२ में एक करोड़ छह लाख बीमार।

रपट 2022 में टीबी निदान और उपचार सेवाओं के पैमाने में एक महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी सुधार को रेखांकित करती है। यह टीबी संबंधी सेवाओं पर कोविड-19 व्यवधानों के

हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए एक उत्साहजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

वर्ष 2020 और 2021 में टीबी के नए मामलों का पता चलने में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई थी, जिसमें 60 फीसद से अधिक गिरावट भारत, इंडोनेशिया और फिलीपीन में दर्ज की गई थी। डब्लूएचओ के महानिदेशक टैड्रास एडहेनाम ग्रेबरियेसस ने कहा, 'सदियों तक, हमारे पूर्वज तपेदिक से पीड़ित रहे और मरते रहे, बिना यह जाने कि यह क्या था, इसका कारण क्या था. या इसे कैसे रोका

उन्होंने कहा, आज, हमारे पास ज्ञान और उपकरण हैं जिनका उन्होंने केवल सपना देखा होगा। हमारे पास बाकी पेज 8 पर

पराली जलाने पर नियंत्रण नहीं, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर

# स्कूलों में छुट्टी, दूसरे राज्यों के एप-आधारित वाहनों पर रोक

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 8 नवंबर।

पराली जलाने पर नियंत्रण नहीं लगने के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दिल्ली सहित आसपास के शहरों में वायु गुणवृत्ता सूचकांक फिर 400 के पार होकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कई तरह के घोषणाएं कीं। दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से एप -आधारित वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। साथ ही, स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियों में बदलाव किया गया है। स्कूलों में जाड़े की छुट्टियां कल से ही होंगी, जो 18 नवंबर तक चलेंगी। अमूमन शीतकालीन अवकाश दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के पहले हफ्ते तक रखा जाता है। इससे पहले खराब वायु गुणवत्ता के कारण तीन नवंबर से 10 नवंबर तक छुट्टियां कर दी गई थीं।

इस संबंध बुधवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय के एक परिपत्र में यह जानकारी दी गई। परिपत्र में कहा गया है कि दिल्ली में व्याप्त गंभीर वायु गुणवत्ता के कारण श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेप)-चार उपायों के कार्यान्वयन और निकट भविष्य में ऐसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों से कोई राहत नहीं मिलने की आशंका के मद्देनजर सत्र 2023-24 के लिए समयपूर्व शीतकालीन अवकाश का आदेश दिया गया है ताकि स्कूल पूरी तरह से बंद रहें और बच्चे व शिक्षक दोनों घर पर रह सकें।

दूसरी ओर, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहाँ कि दूसरे राज्यों से आने वाले एप-आधारित वाहनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली में हवा बाकी पेज 8 पर



दिल्ली की सड़कों पर मशीन से जहरीली धुंध हटाकर राहत पहुंचाने की कोशिश।

# सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा तक टली सम-विषम योजना

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 नवंबर।

दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सम-विषम (आड-इवन) कार योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा किए जाने के बाद ही इसे लागु किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वाहन प्रदुषण पर अंकृश लगाने के उद्देश्य से संबंधित इस योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पत्रकारों से कहा कि योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए शिकागो और दिल्ली

तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणामों को दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत में पेश करेगी। मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा किए जाने और आदेश जारी किए जाने के बाद ही सम-विषम योजना को लागु करने पर निर्णय लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच राय ने पूर्व में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत कारों को उनकी सम-विषम नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में संचालित करने की अनुमति दी जाती है। इसे 13 बाकी पेज 8 पर

₹0.20

प्रति शेयर अर्जन

C0% **1** 

रेम्बरी-दर-रिकारी समस्य पर ४. वृद्धि वर्णाई वर्ष है



# ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : भवन संख्या – २२३, पटपड्गंज औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली 9900६२ (भारत)

हमें ईमेल करें : Care@easemytrip.com

हमें कॉल करें : ०९९ – ४३९३९३९३, ४३०३०३०३



विवरण	३०.०९.२०२३ को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	३०.०६.२०२३ को समाप्त विमाही (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२२ को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२३ को समाप्त अर्धवार्षिक (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२२ को समाप्त अर्घवार्षिक (अलेखापरीक्षित)	३१.०३.२०२३ व समाप्त वार्षिक (लेखापरीक्षित)
कुल आय	9884.5८	१२६६.४५	9920.62	२७१२.१३	२०३५,३२	४६४१.९८
कर से पहले की अवधि के लिए निवल लाम/(हानि)	६४६.५०	340.८२	३८८.०६	990.32	८३२.३६	9८४९.३८
कर से पश्चात् की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	४६९.५५	२५९.०५	२८२.१७	७२८.६०	६१३.५१	9389.03
अवधि/वर्ष के लिए कुल व्यापक आय {लाम/(हानि) अवधि वर्ष (कर के पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात्) के लिए शामिल है}	४७३.९९	રષરૂ.૧૨	२८६.८३	(92 <u>(9</u> .99	દ્દરક.કષ	9380.30
इक्विटी धारकों के कारण अवधि/वर्षों के लिए नेट लाभ	869.65	२५३,१२	२८६.८३	(92(9.99	<b>६</b> 9३,५9	9389.92
वुकता इक्विटी शेयर पूँजी (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु १/–)	9995.08*	9७३८.३२	४३४.५८	9092.08	8\$8.90	903८.३२
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु १/– प्रति इक्विटी शेयर) (तिमाही के लिए वार्षिक नहीं) मूल्य और मिश्रित	0.29	0.94	0.98	0.85	0.34	0.98

'२७ सितंबर २०२३ को ३३.७२ मिलियन इक्विटी शेयरों की प्राधिकृत आवंटन किया गया।

नोटः उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियमन ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर ३० सितंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। ३० सितंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com/www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.easemytrip.com पर उपलब्ध है।

स्थानः दिल्ली दिनांकः ०८ नवंबर, २०२३

बोर्ड के आज्ञानुसार ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड नामः प्रियंका तिवारी

पदनामः समूह कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः A५०४१२

√ १३ मिलियन से अधिक खुश ग्राहक

नियम एवं शर्ते लाग्